



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 फाल्गुन 1936 (श0)
(सं0 पटना 339) पटना, सोमवार, 2 मार्च 2015

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

13 जनवरी 2015

सं0 15/बि0स0से0-25-02/2013 सा0प्र0-557—बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 3, 2008) की धारा-19 की उप-धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन निर्मित बिहार सचिवालय सेवा (सहायक ग्रेड प्रशिक्षण) विनियमावली, 2008 में संशोधन करते हुये उक्त अधिनियम की धारा-11 के आलोक में निम्नलिखित विनियमावली बनायी जाती है:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ:-

- (i) यह विनियमावली बिहार सचिवालय सेवा (सहायक ग्रेड प्रशिक्षण) (संशोधन) विनियमावली, 2014 कही जा सकेगी।
- (ii) इसका विस्तार बिहार राज्य सरकार के सचिवालय विभाग में एवं संलग्न कार्यालयों तक सीमित रहेगी।
- (iii) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. संशोधन:-

- (i) बिहार सचिवालय सेवा (सहायक ग्रेड प्रशिक्षण) विनियमावली, 2008 के नियम-4 में निम्नांकित विषयों को जोड़ा जाता है:-

xxi) बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011

xxii) बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011

xxiii) कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं

xxiv) भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने से संबंधित निगरानी एवं विभागीय कार्यवाही।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजेन्द्र राम,

सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 339-571+1000-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>